

GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 351]	दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 13, 2019/अग्रहायण 22, 1941	[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 326
No. 351]	DELHI, FRIDAY, DECEMBER 13, 2019/AGRAHAYANA 22, 1941	[N.C.T.D. No. 326

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सं. 41/2019—राज्य कर

फा. सं. 3(88)/वित्त(राजस्व-1)/2019-20/डी.एस. VI/615.— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, करदाताओं के निम्नलिखित वर्ग द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलम्ब फीस की रकम का अधित्यजन करती है :-

(i) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनके कारोबार का मुख्य स्थान नीचे सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित जिले, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा—उल्लिखित राज्य में है, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है, जिन्होंने मास जुलाई, 2019 के लिए, दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों के ब्योरे, सामान्य पोर्टल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से 20 सितम्बर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दिए हैं ;

(ii) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनके कारोबार का मुख्य स्थान जम्मू-कश्मीर राज्य में है, जिनकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है, जिन्होंने मास जुलाई, 2019 के लिए दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों के ब्योरे, सामान्य पोर्टल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से 20 सितम्बर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दिए हैं ;

(iii) ऐसे इनपुट सेवा वितरक, जिनके कारोबार का मुख्य स्थान पूर्वोक्त सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित जिले, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा—उल्लिखित राज्य में है, जिन्होंने मास जुलाई, 2019 के लिए, दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 के

प्ररूप जीएसटीआर-6 में विवरणी, सामान्य पोर्टल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से 20 सितम्बर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दी है ;

(iv) ऐसे इनपुट सेवा वितरक, जिनके कारोबार का मुख्य स्थान जम्मू-कश्मीर राज्य में है, जिन्होंने मास जुलाई, 2019 के लिए, दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-6 में विवरणी, सामान्य पोर्टल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से 20 सितम्बर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दी है;

#### सारणी

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	बिहार	अररिया, किशनगंज, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण।
2.	गुजरात	वड़ोदरा।
3.	कर्नाटक	बागलकोट, बेल्लारी, बेलाग्वी, चामराजनगर, चिकमगलुर, दक्षिण कन्नड़, देवनगिरी, धारवाड़, गड़ग, हसन, हावेरी, कालबुर्गी, कोडागु, कोप्पल, माण्डया, मैसूर, रायचूर, शिवामोग्गा, उडुपी, उत्तर कन्नड़, विजयपुरा, यादगिर।
4.	केरल	इडुक्की, मलप्पुरम, वायनाड, कोझीकोड।
5.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघाट, नासिक, अहमदनगर।
6.	ओडिशा	बालंगीर, सोनपुर, कालाहाण्डी, नुवापाड़ा, कोरापुट, मलकानगिरी, रायगढ़, नबरंगपुर।
7.	उत्तराखंड	उत्तरकाशी और चमोली

2. यह अधिसूचना 31 अगस्त, 2019 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप सचिव-VI (वित्त)

### FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

#### NOTIFICATION

Delhi, the 12th December, 2019

#### No. 41/2019-State Tax

**F. No. 3(88)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/615.**—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable under section 47 of the said Act, by the following class of taxpayers: –

- the registered persons whose principal place of business is in the district mentioned in column (3) of the Table below, of the State as mentioned in column (2) of the said Table, having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, who have furnished, electronically through the common portal, details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, for the month of July, 2019, on or before the 20th September, 2019;
- the registered persons whose principal place of business is in the State of Jammu and Kashmir, having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, who have

furnished, electronically through the common portal, details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, for the month of July, 2019, on or before the 20th September, 2019;

(iii) the Input Service Distributors whose principal place of business is in the district mentioned in column (3) of the above said Table, of the State as mentioned in column (2) of the said Table, who have furnished, electronically through the common portal, return in **FORM GSTR-6** of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, for the month of July, 2019, on or before the 20th September, 2019;

(iv) the Input Service Distributors whose principal place of business is in the State of Jammu and Kashmir, who have furnished, electronically through the common portal, return in **FORM GSTR-6** of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, for the month of July, 2019, on or before the 20th September, 2019.

**Table**

Sl. No.	Name of State	Name of District
(1)	(2)	(3)
1.	Bihar	Araria, Kishanganj, Madhubani, East Champaran, Sitamarhi, Sheohar, Supaul, Darbhanga, Muzaffarpur, Saharsa, Katihar, Purnia, West Champaran.
2.	Gujarat	Vadodara.
3.	Karnataka	Bagalkot, Bellari, Belagavi, Chamarajanagar, Chikkamagalur, Dakshina Kannada, Davanagere, Dharwad, Gadag, Hassan, Haveri, Kalaburagi, Kodagu, Koppal, Mandya, Mysuru, Raichur, Shivamogga, Udupi, Uttara Kannada, Vijayapura, Yadgir.
4.	Kerala	Idukki, Malappuram, Wayanad, Kozhikode.
5.	Maharashtra	Kolhapur, Sangli, Satara, Ratnagiri, Sindhudurg, Palghar, Nashik, Ahmednagar.
6.	Odisha	Balangir, Sonepur, Kalahandi, Nuapada, Koraput, Malkangiri, Rayagada, Nawarangpur.
7.	Uttarakhand	Uttarkashi and Chamoli

2. This notification shall come into force on the 31<sup>st</sup> August, 2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,  
A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)